

प्रस्तुति किया जाता है कि इस मापी पुस्तक में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एकड़ पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री...~~जगद्गुरु रमेश्वर~~ सहायक अधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल...~~जगद्गुरु रमेश्वर~~ को निर्गत किया जाता है।

~~जगद्गुरु रमेश्वर~~
कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मध्यनी
०५०३१२२

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION _____

SUB-DIVISION _____

Measurement Book

No. 2744

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					1st on A/c Bill

Name of Work:- Outfall & Perfusion

Baled Mainly road from
11480 m
Tee to North Canal Head

Width M.R.B.S 5.4

Name of Agency - Lalit Hitech work

Pvt Ltd, Jagdishpur Bazar

Aggtno - 10 MBD / 2022 - 23

Date of Start - 19/10/2022

Date of Completion - 18/11/2023 (As Aggt.)

work done

i) clearing & Breaking road head -

1x5x 30.00x1.00(00) = 300.00 m²

2x5x 30.00x1.00(00) = 300.00 m²

1x2x 30.00x1.00(00) = 120.00 m²

2x1x 14.00x1.00(00) = 28.00 m²

1x5x 30.00x1.00(00) = 300.00 m²

1x5x 30.00x1.00(00) = 300.00 m²

total 1348.00 m²

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
11) Double layer Reinforcing					
15) concrete brick Bond					
					(@ 1 m wide + 1 m B.P. - 1 m) \times 6
a) 600mm square - 3 Nos					✓
					$6 \times 6 \times 2 = 0.3 \text{ m}^3 \rightarrow 11,328 \text{ m}^2$
b) 600mm Circular - 4 Nos					✓
15					$6 \times 1.7 = 6.1 \text{ m}^2 \rightarrow 18,470 \text{ m}^2$
c) 600x450mm Rectangular - 6 Nos					✓
16					$6 \times 4.5 \times 0.6 = 0.6 \text{ m}^3 \rightarrow 6,764 \text{ m}^2$
d) 900mm octagon - 2 Nos					✓
17					$0.9 \times 3.13 = 0.8 \text{ m}^2 \rightarrow 18,626 \text{ m}^2$

12) Reinforced concrete					
18					Mains in Boundary Wall
					(@ 1 m wide + 1 m B.P. - 1 m) \times 7
16 Nos. @ 0.7 m \times 0.5 m \rightarrow 11991 m ²					

13) Planing of face by road					
20					Road
					(@ 1 m wide + 1 m B.P. - 1 m) \times 4
59 Nos. @ 0.1038 = 7.16					$\rightarrow 61284 \text{ m}^2$
14) Corrosion of subgrade + B.S.					
28					(@ 1 m wide + 1 m B.P. - 1 m) \times 9
1333.34 m ³ @ 0.052 = 0.1 m \rightarrow 320.617					
1272.24					$\rightarrow 3336015 \text{ m}^2$

CFB 39,72 469 m²
3956,012.

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Add S. fee —					
1) Poon & hilly S. D.R.C. —					
(By induction part) (1) (2)					
3.188 B 3 @ Rs 909 = 21 / 100 B 290 = w					
2) Poo. hilly S. M. Falgon II —					
(By induction part) P. (2) plus (3)					
9.63 m ² @ Rs 1409 = 13 B 81 357 = w					
3) Breath of Unnati road S. P. —					
(By induction part) (2) plus (4)					
16.14 m ² @ Rs 1019 = 70 / 100 B 4405 = w					
4) Content of Subgrade 2 E/S —					
(By induction part) (2) (3) (4)					
133 B 1.34 m ³ @ Rs 35 = 0.1 / 10m B 4668 = w					
1274.24 .					
5)					
Add A road under P (18) — B 26 500 = w					
B 37520 = AB/3 37313					
Add A road under P (18) — 17 80 739 = w					
4762143.					
content of 100 ft Road content of 100 ft Road content of 100 ft Road					
1818259 = w 4799456!					
600.13.291.					
(+) 640347.					
4177912.					
4161608					
AB 1818259 131111m					